



प्रेस नोट

दिनांक- 13.01.2023

थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का खुलासा कर 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया !

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के कुशल नेतृत्व में थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये वांछित 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को दिनांक 13.01.2023 को मय आलाकत्ल के गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 11.01.2022 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादी के भाई भारतेन्दु उर्फ लालू पुत्र चन्द्रशेखर निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने की बात अंकित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0- 10/22 धारा- 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में धारा 201 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गई व पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 18.11.2022 को प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1. विकास भारती पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर कटियार निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात (मुकदमा वादी/मृतक का सौतेला भाई) 2. नीलेश पत्नी स्व0 चन्द्रशेखर कटियार निवासी मुजफ्फरपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात (मृतक की मां) को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक- 13.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लिफ्टिस के डंडे/आलाकत्ल को बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

घटना कारित करने का तरीका- पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा मृतक भारतेन्दु उर्फ लालू उपरोक्त की हत्या करने का मुख्य कारण पैतृक जमीन का बटवारा था। पैतृक जमीन के कारण ही हम लोगों ने मिलकर मृतक भारतेन्दु उर्फ लालू की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. विकास भारती पुत्र स्व० चन्द्रशेखर कटियार निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात।
2. नीलेश पत्नी स्व० चन्द्रशेखर कटियार निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. एक अदद आलाकत्ल यूकेलिप्टस का डण्डा
2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल

अभियुक्त विकास भारती का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 166/2019 धारा 306/506 भा०द०वि० थाना मंगलपुर कानपुर देहात
2. मु०अ०सं० 10/2022 धारा 302/201 भा०द०वि० थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

अभियुक्ता निलेश का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 10/2022 धारा 302/201 भा०द०वि० थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. श्री अखिलेश कुमार जायसवाल प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
2. श्री विजय कुमार सिंह निरीक्षक (अपराध)
3. म०उ०नि० श्रीमती मनु कुमारी
4. म०का० 1163 हेमलता
5. का० 611 नीरज
6. का० 574 सिद्धार्थ पाण्डेय

मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात